



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7—जनवरी 13, 2006 (पौष 17, 1927)  
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7—JANUARY 13, 2006 (PAUSA 17, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2005

सं. यू. 16/53/2003चि.-2(गुजरात)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त (पश्चिमी क्षेत्र), अहमदाबाद द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ (श्रीमती) एस. जी. शाह	1.8.05 से 31.7.06	असरवा
		डॉ. कमलेश कालरा चिकित्सा आयुक्त

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक

सं. 2/1959/डीएल.आई./एक्जम/89/भाग-II----- जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोजकों ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2) (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की संपूर्ण बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -----  
-----आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक----- ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

अनुसूची-1

क्र.सं.	स्थापना का नाम	कोड सं०	छूट की अवधि	
			से	से
1	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/ 1706 दिनांक 27-08-97	खेतान इलेक्ट्रिक लि० ए.पी./6096	01-01-00 24-06-00 24-06-03	23-06-00 23-06-03 23-06-06
2	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट/995 दिनांक. 07-05-02	मे० कोरोमण्डल फर्टिलाइजरस लि०, विशाखापटनम ए.पी./2760	25-09-03	24-09-06
3	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/ 1475 DT. 11-06-98	उषोदया पब्लिकेशन ए.पी./22247	01-04-01 01-04-04	31-03-04 31-03-07
4	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/ 5225 दिनांक 15-02-01	मे० मद्रासी चक्कर बीडी फैक्ट्री प्रा० लि० ए.पी./5276	01-12-00 01-12-03	30-11-03 30-11-06
5	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/ 164 दिनांक 31-05-00	मे० औरियण्ट सिमेंट ए.पी./13433	01-03-00 01-03-03	28-02-03 28-02-06
6	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/ 2844 दिनांक 18-11-98	मे० सेंट पीटरस सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल ए.पी./22059	01-03-00 01-03-03	28-02-03 28-02-06
7	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/ 83 दिनांक 16-02-03	एस के मशीन टूल्स ए.पी./13463	01-03-01 01-03-04	29-02-04 28-02-07
8	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/ 1002 दिनांक 15-10-04	M/s. फाइटोमेम फोरमूलेशन लि० ए.पी./16521	01-02-04	31-01-07
9	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/ 4238 दिनांक 06-09-99	मे० ग्लांडफामा प्रा० लि०. ए.पी./1337	01-03-02	28-02-05
10	2/1959/डीएल.आई./एक्सेम/89/पार्ट I/ 1869 दिनांक 12-01-04	मै. के. एस. सुब्बया पिल्लै एण्ड कं. (आई) लि. ए.पी./2071	1-1-05	31-12-07
11	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/ 2940 दिनांक 23-11-04	मे० कर्कातिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एण्ड साइंस ए.पी./11957	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
12	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/ 255 दिनांक 07-04-99	मे० मुल्कानुर को-ओप रूरल बैंक एण्ड एमकेजी सोसायटी लि० ए.पी./3151	01-03-01 01-03-04	29-02-04 28-02-07
13	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/ 1869 दिनांक 12-10-04	दि प्रकाशम डि० को-ओप सेन्ट्रल बैंक लि०, ओंगेल ए.पी./4983	01-01-05	31-12-07

14	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/560 दिनांक 14-07-04	मे0 एलोजेंट केमिकल एन्टरप्राइजेज प्रा0 लि0. ए.पी./26352	01-01-04	31-12-06
15	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/995 दिनांक 07-05-02	मे0 प्रोडन्शाल को-ओप बैंक लि0 ए.पी./6141	01-04-04	31-03-07
16	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/1869 दिनांक 12-01-04	मे0 के.एस. सुबया पिल्लनई एण्ड कं0 (आई)लि0 ए.पी./2071	01-01-05	31-12-07
17	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/83 दिनांक 05-04-99	मे0 कारोमण्डल एग्रो प्रोडक्ट्स एण्ड ऑयलस लि0 ए.पी./6257	01-11-01 01-11-04	31-10-04 31-10-07
18	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/23 दिनांक 02-04-03	मे0 एम ए डी डी आई लक्ष्माइह एण्ड कं0 लि0 एपी/2555, मे0 एम एल एग्रो प्रोडक्ट्स लि0, मारटूर, एपी/2555ए, मे0 एम एल एग्रो प्रोडक्ट्स लि0, चिलकालुरीपेटए एपी/2555 बी	01-01-05	31-12-07
19	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/5855 दिनांक 31-01-00	मे0 श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक ए.पी./14267	01-10-00 01-10-03	30-09-03 30-09-06
20	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/237 दिनांक 06-04-99	मे0 इंडियन एक्सप्रेस मद्रुरई लि0 ए.पी./5635	14-07-01 14-07-04	13-07-04 13-07-07
21	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/375 दिनांक 25-01-96	मे0 गड्डुडनापल्ली लार्ज साइजड को- ओप क्रेडिट सोसायटी लि0 ए.पी./4121	01-09-97 24-06-00 24-06-03	23-06-00 23-06-03 23-06-06
22	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/111 दिनांक 05-04-99	मे0 ए.पी. फारमरस सर्विस को-ओप सोसायटी लि0 ए.पी./18254	01-03-02	28-02-05
23	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/ डि.11/1892/96 दिनांक 27-01-04	मे0 आईएनवाईएस मेडिकल रिसर्च सोसायटी केएन/10822	01-02-05	31-01-08
24	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/905 दिनांक 23-01-99	मे0 जिंदल पब्लिक स्कूल केएन/7001	01-01-04	31-12-06
25	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पा र्ट.1/1276 दिनांक 18-02-03	मे0 कोवलोंग बीच होटल (आई) लि0 केएन/12360	01-12-04	30-11-07
26	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/1276 दिनांक 18-02-03	मे0 केनरा निधि लि0. केएन/12975	01-08-04	31-07-07
27	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- V/36739 दिनांक 25-02-99	मे0 नाइट शंकर अध्यान्तया मेमोरियल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज केएन/12344	01-01-00	31-12-02

अनुसूची-1

क्र.सं.	स्थापना का नाम	कांड सं०	छूट की अवधि	
			से	तक
1	मे० करंबस बायोकेमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीस लि०	एपी/वीपी/31874	01-07-04	30-06-07
2	मे० रिजेन्सी क्ले प्रोडक्ट्स लि०	एपी/36520	01-03-04	28-02-07
3	मे० कारीन एनर्जी (आई) प्रा० लि०	एपी/28657	01-02-02	31-01-05
4	मे० दि.के.सी.पी. लि० (हाइडल यूनिट)	एपी/33395	01-02-01 01-02-04	31-01-04 31-01-07
5	मे० न्यू किरण कशेवा गांधी नगर	केएन/20214	01-07-01 01-07-04	30-06-04 30-06-07
6	मे० बाकोलेण्ड फूड्स प्रा० लि०, मंगलौर	केएन/20038	01-11-00 01-11-03	31-10-03 31-10-06
7	मे० ए.एन. मूडाबिदरी पोर्लॉटेकनीक	केएन/12688	01-01-04	31-12-06
8	ए.जी. सोनास आई.टी.सी. मुघादरी	केएन/12689	01-02-04	31-01-07
9	मे० निर्मला ट्रेवल्स मंगलौर, 4 शाखाओं के साथ	केएन/12592	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
10	मे० प्रकाश इंजि० उडूपी	केएन/20039	01-06-97 01-06-00 01-06-03	31-05-00 31-05-03 31-05-06
11	मे० कोनकान स्पेसियलिटी पोली प्रोडक्ट्स प्रा० लि०	केएन/12755	01-03-01 01-03-04	29-02-04 28-02-07

अनुसूची - 1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के अधीन समग्र-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।
9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है।
10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जात है और पॉलिसी को व्यक्त हो दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सूरज शर्मा  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डीएल.आई./एकजम/89/भाग-II----- जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2) (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -----  
 --- केरल/आन्ध्र प्रदेश ----- ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

## अनुसूची - I

क्र.सं.	पूर्व अधिसूचना सं० एवं तिथि	स्थापना का नाम	छूट की तिथि	
			से	तक
1	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1892 दिनांक 27-01-04	मै० पिराकल इलेस्टोमर(आई)लि० केआर/14426	01-12-02	30-11-05
2	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1897 दिनांक 27-01-04	मै० ग्रुप 4 सिक्कूरिटीस गारडिंग प्रा० लि० केआर/केसी/13927	01-10-03	30-09-06
3	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1892 दिनांक 27-01-04	मै० अरनाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-ओप बैंक लि० केआर/केसी/1912	01-08-04	31-07-07
4	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/992 दिनांक 07-05-02	मै० पीवीस पब्लिक स्कूल केआर/केके/14152	01-11-03	31-10-06
5	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1020 दिनांक 02-08-02	मै० मैडिकेअरस डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल केआर/केके/14863	01-05-04	30-04-07
6	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1020 दिनांक 02-08-02	मै० संजीवनी हॉस्पिटल प्रा० लि० केआर/केके/14081	01-08-04	31-07-07
7	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/399 दिनांक 08-06-04	मै० एस.ई. ओटोमोबाइल्स प्रा० लि० केआर/केके/17072	01-04-04	31-03-07
8	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/ दिनांक 06-03-90	मै० थिरुसूर डिस्ट्रीक्ट को-ओप हॉस्पिटल लि० केआर/केसी/4515	01-06-91 01-06-94 01-06-97 01-06-00	31-05-94 31-05-97 31-05-00 31-05-03
9	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1892 दिनांक 27-01-04	मै० केरला एग्री मशीनरी कोरप लि० केआर/केसी/4941	01-09-04	31-08-07
10	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1892 दिनांक 27-01-04	मै० इंडियन एलमिनियम कं० लि०, केआर/केसी/35 एण्ड 35 ए	27-02-03	26-02-06
11	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1897 दिनांक 27-01-04	मै० फॉरेस्ट इन्डस्ट्रीज (त्रावनकोर) लि० केआर/केसी/1344	01-10-03	30-09-06
12	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1892 दिनांक 27-01-04	मै० खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन सेंट्रल सिल्वर प्लांट केआर/केसी/4640ए	01-06-04	31-05-07
13	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1897 दिनांक 27-01-04	मै० दि अलवाये सेटलमेंट यू.सी. कॉलेज केआर/केसी/10058	01-08-04	31-07-07



14	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /1892 दिनांक 27-01-04	मे० विद्या प्रकाश पब्लिक स्कूल केआर/केके/14125	01-01-04	31-12-07
15	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /992 दिनांक 07-05-02	मे० वीकेसी पबड इन्डस्ट्रीज लि० केआर/केके/11629	01-11-03	31-10-06
16	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /1892 दिनांक 27-01-04	मे० अगीन कैमिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स केआर/केके/17081	01-01-05	31-12-07
17	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /1278 दिनांक 18-02-03	मे० कोशीयस इलेक्ट्रॉनिक्स लि० केआर/10171	01-01-05	31-12-07
18	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /1278 दिनांक 18-02-03	मे० आशिक एन्टरप्राइजेज केआर/केके/14591	01-01-05	31-12-07
19	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /1278 दिनांक 18-02-03	मे० आशिक एक्सपोर्ट्स प्रा० लि० केआर/केके/17082	01-01-05	31-12-07
20	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /1897 दिनांक 27-01-04	मे० हायसन हेरिटेज केआर/केके/17167	01-07-03	30-06-06
21	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /22 दिनांक 02-04-03	मे० हिन्दुस्तान आर्गोनिक कैमिकल्स लि० केआर/केसी/13212	01-10-04	30-09-07
22	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /92 दिनांक 07-05-02	मे० केरला स्टेट को-ओप एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक लि० केआर/1914	24-06-03	23-06-06
23	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /1020 दिनांक 02-08-02	मे० एक्सप्रेस पब्लिकेशनस मुदीरई लि० केरला केआर/14142	01-12-03	30-11-06
24	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /992 दिनांक 07-05-02	कोडुक्कल को-ओप अरबन बैंक लि० केआर/14458	01-12-03	30-11-06
25	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /37232 दिनांक 15-03-99	मे० स्टील इन्डस्ट्रीज केरला लि०, कर्लीपे डि० केआर/12100	01-10-98 01-10-01	30-09-01 30-09-04
26	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /2174 दिनांक 08-07-99	केरला एगो मशीनरी कोरप पलाक्कड केआर/14315	01-09-01	30-08-04
27	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- /992 दिनांक 07-05-02	मे० ओलम एक्सपोर्ट्स (आई) लि० कोलामकुआला केआर/16165	01-04-04	31-07-07

28	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/992 दिनांक 07-05-02	मै0 केरला स्टेट को-ओप बैंक लि0 त्रिवेन्द्रम केआर/2575	01-04-03	31-03-06
29	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1020 दिनांक 02-08-03	मै0 मीडियाट्रोनिक्स प्रा0 लि0 त्रिवेन्द्रम केआर/15333	01-03-02	29-02-05
30	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/2394 30-09-97	मै0 ग्रेटर तेनाली लेप्रोसी मेरामपुडी एपी/13605	01-08-99 01-08-02	31-07-02 18-09-03
31	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/994 दिनांक 20-01-94	मै0 इनेक्स प्रोडक्ट्स, विशाखापट्टनम एपी/14334	01-04-04	31-03-07
32	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/2287 दिनांक -07-99	मै0 विजया इन्टरप्राइजेस, विजयवाड़ा एपी/16548	01-03-00 01-03-03	28-02-03 29-02-06
33	2/1959/डीएलआई/एक्सम/89/पार्ट- I/1869 दिनांक 12-01-04	मै0 विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम एपी/6986	01-02-04	31-01-07

### अनुसूची - I

क्र.सं.	स्थापना का नाम	कोड सं0	छूट की तिथि	
			से	तक
1	मै0 स्पोर्ट्स लक्ष्यद्वीप ऑफिस, कोची-3	केआर/12373	1.3.04	28.2.07
2	मै0 ट्रस्ट रबडस, त्रिचूर	केआर/13602	1.2.04	31.1.07
3	मै0 प्रसून इन्डस्ट्रीज, त्रिचूर	केआर/19408	1.2.04	31.1.07
4	मै0 सौफिसटिकेटेड टेस्टल इन्स्ट्रुमेंटेशन सेंटर, कोची	केआर/15152	1.3.04	31.1.07
5	मै0 एवीटी, एमसी कोरमिक इन्ग्रेडिएन्ट्स प्रा0 लि0, अलूवा - 683107	केआर/15865	1.9.03	31.8.06

**अनुसूची - 1**

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि चारिस्/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है।
10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारोख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जात है और पॉलिसी को व्यंगत हो दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्दातो/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्पस्ता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सूरज शर्मा  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

**वास्तुकला परिषद्**  
(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित)


**नई दिल्ली — 110003, दिनोंक 27 दिसम्बर, 2005**

एफ.सं. सी.ए./5/2005.— वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20 वॉ) की धारा 21 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (ई), (जी), (एच) और (जे) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला परिषद् एतद्वारा वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1983 जो भारत के गजट (भाग III खण्ड 4) में दिनोंक 26 मार्च, 1983 तथा 27 अगस्त, 1983 को प्रकाशित हुए हैं में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2005 होगा।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1983 के विनियम 4 में :

(क) उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा :

“(1) कोई भी अभ्यर्थी जो नई 10+2 प्रणाली के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में गणित विषय के साथ उत्तीर्ण नहीं हुआ हो और जिसके कुल प्राप्तांक 50 प्रतिशत से कम हैं को वास्तुकला पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।”



विनोद कुमार  
रजिस्ट्रार

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION****New Delhi, the 25th November 2005**

**No.U-16/53/2003/Med.II/(Guj) :** - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Ahemdabad for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
Dr. (Mrs.)S.G.Shah	1.8.2005 to 31.7.2006	Asarwa

**Dr. KAMLESH KALRA**  
Medical Commissioner

MINISTRY OF LABOUR  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION  
(HEAD OFFICE)  
New Delhi-110066, the

No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt. II—\_\_\_\_\_ whereas

the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers offered by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, Karnataka from the operation of said scheme for a period of 3 (three) years.

## SCHEDULE-I

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of the establishment	Period of Exemption	
			From	To
1	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 1706 Dt. 27-08-97	M/s. Khaitan Electric Ltd. AP/6096	01-01-00 24-06-00 24-06-03	23-06-00 23-06-03 23-06-06
2	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/995 Dt. 07-05-02	M/s. Coromandal Fertilizers Ltd., Vishakhapatnam AP/2760	25-09-03	24-09-06
3	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 1475 DT. 11-06-98	M/s. Ushodaya Publications AP/22247	01-04-01 01-04-04	31-03-04 31-03-07
4	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 5225 Dt. 15-02-01	M/s. Madras Chakkar Bidi Factory (P) Ltd. AP/5275	01-12-00 01-12-03	30-11-03 30-11-06
5	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/164 Dt. 31-05-00	M/s. Orient Cement AP/13433	01-03-00 01-03-03	28-02-03 28-02-06
6	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 2844 Dt. 18-11-98	M/s. St. Peter's Central Public School AP/22059	01-03-00 01-03-03	28-02-03 28-02-06
7	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/83 Dt. 16-02-03	M/s. E. Kay Machine Tools (P) Ltd. AP/13463	01-03-01 01-03-04	29-02-04 28-02-07
8	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 1002 Dt. 15-10-04	M/s. Fytokem Formulations Ltd. AP/16521	01-02-04	31-01-07
9	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 4238 Dt. 06-09-99	M/s. Glandpharma (P) Ltd. AP/1337	01-03-02	28-02-05
10	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 1869 Dt. 12-01-04	M/s. K.S. Subbiah Pillai & Co. (I) Ltd. AP/2071	01-01-05	31-12-07
11	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 2940 Dt. 23-11-04	M/s. Kakatiya Institute of Technology & Science AP/11957	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
12	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/255 Dt. 07-04-99	M/s. Mulkanoor Co-op. Rural Bank & MKG Society Ltd. AP/3151	01-03-01 01-03-04	29-02-04 28-02-07
13	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 1869 Dt. 12-10-04	M/s. The Prakasham Dist. Co-op. Central Bank Ltd., Ongale AP/4983	01-01-05	31-12-07



14	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 560 Dt. 14-07-04	M/s. Elegant Chemical Enterprises (P) Ltd. AP/26352	01-01-04	31-12-06
15	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 995 Dt. 07-05-02	M/s. Prodential Co-op. Bank Ltd. AP/6141	01-04-04	31-03-07
16	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 83 Dt. 05-04-99	M/s. Coromandal Agro Products & Oils Ltd. AP/6257	01-11-01 01-11-04	31-10-04 31-10-07
17	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 23 Dt. 02-04-03	M/s. MADDI Lakshmaiah & Co. Ltd. AP/2555. M/s. M.L. Agro Products Ltd., Martur AP/2555A. M/s. M.L. Agro Products Ltd., Chilakaluripet AP/2555B	01-01-05	31-12-07
18	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 5855 DT. 31-01-00	M/s. Sri Saraswathi Gramina Bank AP/14267	01-10-00 01-10-03	30-09-03 30-09-06
19	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 237 Dt. 06-04-99	M/s. Indian Express Madurai Ltd. AP/5635	14-07-01 14-07-04	13-07-04 13-07-07
20	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 375 Dt. 25-01-96	M/s. Gattududdenapalli Large Sized Co-op. Credit Society Ltd AP/4121	01-09-97 24-06-00 24-06-03	23-06-00 23-06-03 23-06-06
21	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 111 Dt. 05-04-99	M/s. A.P. Farmers Service Co- op. Society Ltd. AP/18254	01-03-02	28-02-05
22	2/1959/EDLI/Exemp/89/ Div.II/1892/96 Dt. 27-01-04	M/s. INYS Medical Research Society KN/10822	01-02-05	31-01-08
23	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 905 Dt. 23-01-99	M/s. Jindal Pubic School KN/7001	01-01-04	31-12-06
24	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1276 Dt. 18-02-03	M/s. Covelong Beach Hotel (I) Ltd. KN/12360	01-12-04	30-11-07
25	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1276 Dt. 18-02-03	M/s. Canara Nidhi Ltd. KN/12975	01-08-04	31-07-07
26	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 36739 Dt. 25-02-99	M/s. Nittee Shankar Adhyanthaya Memorial first Grade College KN/12344	01-01-00	31-12-02

**SCHEDULE-I**

S. No.	Name of the establishment	Code No.	Period of Exemption	
			From	To
1	M/s. Karebs Biochemicals & Industries Ltd.	AP/VP/31874	01-07-04	30-06-07
2	M/s. Regency Clay Products Ltd.	AP/36520	01-03-04	28-02-07
3	M/s. Carin Energy (I) Pvt. Ltd.	AP/28657	01-02-02	31-01-05
4	M/s. The K.C.P. Ltd. (Hydel unit)	AP/33395	01-02-01 01-02-04	31-01-04 31-01-07
5	M/s. New Kiran Cashewa, Gandhi Nagar	KN/20214	01-07-01 01-07-04	30-06-04 30-06-07
6	M/s. Bakoland Foods (P) Ltd., Mangalore	KN/20038	01-11-00 01-11-03	31-10-03 31-10-06
7	M/s. S.N. Mudabidri Polytechnic	KN/12688	01-01-04	31-12-06
8	M/s. A.G. Sonas I.T.C. Moodbadri	KN/12689	01-02-04	31-01-07
9	M/s. Nirmala Travels, Mangalore (alongwith its 4 branches)	KN/12592	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
10	M/s. Prakash Engg., Udupi	KN/20039	01-06-97 01-06-00 01-06-03	31-05-00 31-05-03 31-05-06
11	M/s. Konkan Speciality Poly Products (P) Ltd.	KN/12755	01-03-01 01-03-04	29-02-04 28-02-07

**SCHEDULE-II**

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Regional Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./ Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable at the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.
9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

SURAJ SHARMA  
Regional P. F. Commissioner-II

No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt. II—\_\_\_\_\_ whereas  
the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers offered by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and Andhra Pradesh from the operation of said scheme for a period of 3 (three) years.

## SCHEDULE-I

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of the establishment	Period of Exemption	
			From	To
1	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1892 Dt. 27-01-04	M/s. Miracle Elastomer (I) Ltd. KR/14426	01-12-02	30-11-05
2	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1897 Dt. 27-01-04	M/s. Group 4 Securities Guarding (P) Ltd. KR/KC/13927	01-10-03	30-09-06
3	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1892 Dt. 27-01-04	M/s. Ernakulam District Co-op. Bank Ltd. KR/KC/1912	01-08-04	31-07-07
4	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/992 Dt. 07-05-02	M/s. Peevees Public School KR/KK/14162	01-11-03	31-10-06
5	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1020 Dt. 02-08-02	M/s. Medicares District Hospital KR/KK/14863	01-05-04	30-04-07
6	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1020 Dt. 02-08-02	M/s. Sajeevani Hospital (P) Ltd. KR/KK/14081	01-08-04	31-07-07
7	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/399 Dt. 08-06-04	M/s. A.C.E. Automobiles (P) Ltd. KR/KK/17072	01-04-04	31-03-07
8	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ Dt. 06-03-90	M/s. Thrissur District Co-op. Hospital Ltd. KR/KC/4515	01-06-91 01-06-94 01-06-97 01-06-00	31-05-94 31-05-97 31-05-00 31-05-03
9	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1892 Dt. 27-01-04	M/s. Kerala Agro Machinery Corpn. Ltd. KR/KC/4941	01-09-04	31-08-07
10	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1892 Dt. 27-01-04	M/s. Indian Aluminium Co. Ltd. KR/KC/35 & 35A	27-02-03	26-02-06
11	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1897 Dt. 27-01-04	M/s. Forest Industries (Travancore) Ltd. KR/KC/1344	01-10-03	30-09-06
12	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1892 Dt. 27-01-04	M/s. Khadi & Cillage Industries Commission Central Silver Plant KR/KC/4640A	01-06-04	31-05-07
13	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1897 Dt. 27-01-04	M/s. The Alwaye Settlement U.C. College KR/KC/10058	01-08-04	31-07-07

14	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1892 Dt. 27-01-04	M/s. Vidya Prakash Public School KR/KK/14125	01-01-04	31-12-07
15	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 992 Dt. 07-05-02	M/s. Veekesy Rubber Industries Ltd. KR/KK/11629	01-11-03	31-10-06
16	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1892 Dt. 27-01-04	M/s. Agin Chemicals & Cosmetics KR/KK/17081	01-01-05	31-12-07
17	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1278 Dt. 18-02-03	M/s. Koshiy's Electronics Ltd. KR/10171	01-01-05	31-12-07
18	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1278 Dt. 18-02-03	M/s. Ashique Eneterprises KR/KK/14591	01-01-05	31-12-07
19	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1278 Dt. 18-02-03	M/s. Ashique Exports (P) Ltd. KR/KK/17082	01-01-05	31-12-07
20	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1897 Dt. 27-01-04	M/s. Hyson Heritage KR/KK/17167	01-07-03	30-06-06
21	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 22 Dt. 02-04-03	M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd. KR/KC/13212	01-10-04	30-09-07
22	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 92 Dt. 07-05-02	M/s. Kerala State Co-op. Agriculture & Rural Development Bank Ltd. KR/1914	24-06-03	23-06-06
23	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1020 Dt. 02-08-02	M/s. Express Publications Muddirai Ltd., Kerala KR/14142	01-12-03	30-11-06
24	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/99 2 Dt. 07-05-02	M/s. Kottakkal Co-op. Urban Bank Ltd. KR/14458	01-12-03	30-11-06
25	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 37232 Dt. 15-03-99	M/s. Steel Industries Kerala Ltd., Klippey dist. KR/12100	01-10-98 01-10-01	30-09-01 30-09-04
26	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 2174 Dt. 08-07-99	M/s. Kerala Agro Machinery Corpn., Pallakkad KR/14315	01-09-01	30-08-04
27	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/99 2 Dt. 07-05-02	M/s. Olam Exports (I) Ltd., Kollamkuala KR/16165	01-04-04	31-07-07

28	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/99 2 Dt. 07-05-02	Kerala State Co-op. Bank Ltd., Trivandrum KR/2575	01-04-03	31-03-06
29	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1020 Dt. 02-08-03	M/s. Mediatronix (P) Ltd., Trivandrum KR/15333	01-03-02	29-02-05
30	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 2394 30-09-97	M/s. Greater Tenali Leprosy, Merampudi AP/13605	01-08-99 01-08-02	31-07-02 18-09-03
31	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 994 Dt. 994 Dt. 20-01-94	M/s. Inex Products, Vishakhapatnam AP/14334	01-04-04	31-03-07
32	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 2287 Dt. -07-99	M/s. Vijaya Enterprises, Vijayawada AP/16548	01-03-00 01-03-03	28-02-03 29-02-06
33	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1869 Dt. 12-01-04	M/s. Visakhapatnam Steel Plant, Visakhapatnam AP/6986	01-02-04	31-01-07fs

SCHEDULE-1

S. No.	Name of the estt.	Code No.	Period of Exemption
1.	M/s. Sports Lakshadeep office Kochi-3.	KR/12373	1.3.04 to 28.2.07
2.	M/s. Trust Rubbers, Trichur.	KR/13602	1.2.04 to 31.1.07
3.	M/s. Prasun Industries, Trichur	KR/19408	1.2.04 to 31.1.07
4.	M/s. Sophisticated Testal Instrumentation Centre, Kochi.	KR/15152	1.3.04 to 31.1.07
5.	M/s. AVT, MC Cormic ingredients Pvt. Ltd., Aluva-683107	KR/15865	1.9.03 to 31.8.06

**SCHEDULE-II**

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./ Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.



7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable at the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.
9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

SURAJ SHARMA  
Regional P. F. Commissioner-II

**COUNCIL OF ARCHITECTURE**  
(Incorporated under the Architects Act, 1972)

New Delhi-110003, the 27<sup>th</sup> December, 2005

F.No.CA/5/2005.- In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g), (h) and (j) of sub-section (2) of Section 45 read with Section 21 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 1983, the same having been previously published in the Gazette of India (Part III – Section 4) on 26<sup>th</sup> March, 1983 and 27<sup>th</sup> August, 1983, respectively namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Regulation 4 of the Council of Architecture (Minimum Standards of architectural Education) Regulations, 1983,
  - (i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) No candidate, with less than 50% marks in aggregate, shall be admitted to the architecture course unless he/she has passed an examination at the end of new 10+2 scheme of Senior School Certificate Examination or equivalent with Mathematics as a subject of examinations at the 10+2 level.”

VINOD KUMAR  
Registrar